

LOK SABHA

Monday, November 7, 1966/Kar-tika 16, 1888 (saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[MR. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Military Air Base for Pakistan in Iran

*121. Shri Vishram Prasad:
Shri Tridib Kumar
Chaudhuri:

Shri Firodia:
Shri R. S. Pandey:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Indrajit Gupta:
Shri Vasudevan Nair:
Shri Liladhar Kotoki:
Shri N. R. Laskar:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri P. C. Borooah:
Shrimati Tarkeshwari Sinha:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) whether Government are aware that immediately after the return of F-86 Sabre Jets purchased from West Germany to Iran by Pakistan about which India had earlier lodged protests to Iran, West Germany and Canada, the Government of Iran have granted a complete military air base to Pakistan within the territory of Iran, where the self-fame jets purchased by Iran from West

Germany would be kept under the control of Pakistan; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) and (b). Government have seen press reports alleging that Iran has given to Pakistan the facility of a military air base where the F-86 aircraft, which Iran had agreed to bring back from Pakistan, would remain under the control of Pakistan. The Government have made enquiries but no information on the existence of any such arrangements between Pakistan and Iran has come to light.

श्री विश्राम प्रसाद: हिन्दुस्तान गवर्नमेंट ने यह एयरबेस पाकिस्तान को दिये जाने के सम्बन्ध में प्रोटेस्ट भी लाज किया था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या गवर्नमेंट को उस प्रोटेस्ट का जवाब मिला है या नहीं और क्या इस बारे में कोई और सूचना मिली है।

श्री विनेश सिंह: हम ने ऐसा कोई विरोध-पत्र नहीं दिया था।

श्री विश्राम प्रसाद: क्या पाकिस्तान को ईरान में एयरबेस की सुविधा दिये जाने में हिन्दुस्तान के लिए कोई खतरा पैदा हुआ है; अगर हाँ, तो सरकार उसके बारे में किस हद तक हॉशियार है?

श्री विनेश सिंह: मैं ने अभी अज्ञ किया है कि हमें पता नहीं है कि ऐसा कोई एयरबेस बना है।

Shri Indrajit Gupta: In view of the fact that both Pakistan and Iran are members of military alliances in which the USA is a major partner,

may I know whether Government have made any representations to the US Government saying that though they have said that no lethal weapon supplies will be sent to Pakistan or India, here are the F-86 Sabre-jets which are, if anything, super-lethal weapons, being supplied by her own partners in these military pacts? Has any such representation been made, and if so, what is the response of the US Government?

Shri Dinesh Singh: We had conveyed our concern in the matter to the US Government also.

Shri Indrajit Gupta: What is the response? What do they say?

Shri Dinesh Singh: They have said that so far as they are concerned, their policy continues which the hon. Member has mentioned.

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो जैट प्लेन्ज ईरान की मार्फत पाकिस्तान आये थे, जिनके बारे में खबर है कि वे वापस चले गये हैं, क्या पाकिस्तान इस तथा-कथित हवाई अड्डे के द्वारा उन हवाई जहाजों का प्रयोग कर सकता है और क्या मौका पड़ने पर हमारे विरुद्ध उनका प्रयोग हो सकता है; यदि हां, तो जिस देश से वे हवाई जहाज आये थे, क्या भारत सरकार ने उसके साथ कोई लिखा-पढ़ी की है।

श्री विनेश सिंह : उन देशों से क्या लिखा-पढ़ी हुई है, यह तो सदन को पूरी तरह पता है। हम ने वह पूरी तरह बता दिया है।

श्री मधु लिमये : क्या सरकार को याद है कि कौनेडा और पश्चिमी जर्मनी के बीच में इन जैट हवाई जहाजों के सम्बन्ध में जो करार या सन्धि हुई थी, उसके बारे में हिन्दुस्तान की सरकार ने कहा था कि पश्चिमी जर्मनी ने ईरान को ये विमान दे कर उस सन्धि का उल्लंघन किया है, लेकिन बाँन सरकार ने कहा कि हम ने उस सन्धि की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है ? क्या मंत्री महोदय

इस बारे में सही जानकारी देने की कृपा करेंगे ?

श्री विनेश सिंह : जहाँ तक हमारी सूचना है, जब वैस्ट जर्मन सरकार को ये हवाई जहाज दिये गये थे, तो यह शर्त थी कि कौनेडा सरकार से बिना पूछे ये हवाई जहाज किसी और देश को नहीं दिये जायेंगे। इसी को दृष्टि में रखते हुए हम ने यह कहा था। लेकिन जो कुछ भी हो, यह जाहिर होता है कि कुछ देशों ने ईरान पर जोर डाला है कि पाकिस्तान से ये जहाज वापस बुला लिये जायें।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का संरक्षण चाहता हूँ। "जो कुछ भी हो", इसका क्या मतलब है ? भारत सरकार के द्वारा एक आरोप लगाया गया, जिसका खंडन बाँन सरकार ने तथ्यों के आधार पर किया है। सदन को सही स्थिति का तो पता लगना चाहिए कि क्या बाँन सरकार झूठ बोल रही है या भारत सरकार शलतबयानी कर रही है।

श्री विनेश सिंह : उस सन्धि की तो हमारे पास नबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ। जो बातें हमें मालूम हुईं, उनके आधार पर मैंने यह कहा है।

श्री मधु लिमये : यह किसी बात की जानकारी तो रखते नहीं और विदेश मंत्रालय चला रहे हैं।

श्री विनेश सिंह : माननीय सदस्य इससे अचछा नहीं चला सकेंगे और न उनको मौका मिलेगा।

श्री मधु लिमये : मौका मिलेगा और हम इन से अचछा चलायेंगे।

Dr. M. M. Das: May I know whether in addition to a cultural agreement, we have entered into any other bilateral agreement with Iran?

Mr. Speaker: That is not relevant here.

Shri S. C. Samanta: May I know whether the foreign newspapers that published this news about a military air base being placed by Iran under the control of Pakistan were contacted to ascertain the source of their information?

Shri Dinesh Singh: No, we did not contact the foreign newspapers.

Shrimati Savitri Nigam: What is the authentic information which our Ministry has got through our embassy in Iran as to whether this news which has been published in all the newspapers is correct or not?

Shri Dinesh Singh: The information I have given is based on the information we have received from the missions and elsewhere.

Shri Hem Barua: May I know if the attention of Government has been drawn to a statement made by an Iranian leader to the effect that "India, must not go on reminding us; we are conscious of our own responsibilities"? If so, what is Government's reaction to this statement?

Shri Dinesh Singh: We are glad to hear that Iran is conscious of her responsibility and will not give assistance to Pakistan against us. But when something comes to our notice, we have to bring it to their notice again.

श्री किशन पटनायक : सरकार ने इस बारे में पूछ-गछ की थी और उसको कोई जवाब या सूचना नहीं मिली। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस बात का विश्वास हो गया है कि ईरान में इस तरह का एयरबेस पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दे दिया है।

श्री किशन पटनायक : उन्होंने कहा है कि पता नहीं चला है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस वक्त उनका विश्वास क्या है।

श्री विनेश सिंह: जो सूचना हमारे पास थी, वह हम ने दे दी है। ऐसा बेस कहीं हो सकता है या नहीं, यह कहना बड़ा मुश्किल है। उनकी सन्धि है। मुमकिन है, हो सकता है।

Shri Kapur Singh: If I heard the hon. Minister correctly, while replying to the question in the beginning, he said that Government have received information that such and such a state of affairs exists. Then he said that we have made enquiries but no such information has come to light. It is this which has puzzled the House. Will he either reconcile or clarify these statements?

Shri Dinesh Singh: I am afraid I do not see any contradiction at all. I had said that this information had come to us through the press and from newspaper agencies.

Shri D. C. Sharma: I am very glad that Pakistan and Iran are coming together. In view of the fact that an Islamic summit is in the offing or has already taken place, what are going to be the repercussions of India to that summit when Pakistan, Iran and some Arab countries come still closer together?

Mr. Speaker: The Islamic summit is not yet held.

Shri P. C. Borooah: Is it a fact that the aircraft received from Iran, Pakistan stripped them of the spares required for repairing their own aircraft damaged during the India-Pakistan conflict and brought fresh spare parts from Iran to repair the jets to be returned to Iran? If so, what steps have been taken by Government?

Shri Dinesh Singh: We gave all this information in the last session of the House. They said that they sent them for repairs; they must have got the spare parts to repair them.